

Learn To Lead

Common Minimum Syllabus as per NEP for Kumaun University/
Shri Dev Suman Uttarakhand University and all Uttarakhand State Universities
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कुमाऊँ विश्वविद्यालय/श्री देव सुमन विश्वविद्यालय
एवं समस्त उत्तराखण्ड विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम

PHYSICS

Electricity and Magnetism

विद्युत एवं चुम्बकत्व

Bilingual (English-हिन्दी)



THAKUR PUBLICATION PVT. LTD.
LUCKNOW

Dr. Harish Chandra
Dr. Naval Kishor Lohani
Dr. Neha Arora
प्रो.(डॉ.) कवि शंकर वाष्णीय

About the Author लेखक परिचय



Dr. Harish Chandra is presently working as an Associate Professor & Head, department of Physics, S.B.S. Government P.G. College Rudrapur, Uttarakhand. He is a post graduate in advanced electronics and M.Phil & Ph.D in the condensed Matter Physics from Agra University, Agra. He is having 22 years of teaching experience in the field of electronics. He has attended various National and International seminars, conference and workshops.



Dr. Navaj Kishor Lohani is presently working as an Assistant Professor in Department of Physics at M.R.Govt. P.G. College, Haldwani, Nainital. He is having 15 years of teaching experience for U.G. and PG students. After completing his post-graduation in Physics with specialization in electronics, he did his Ph.D in astrophysics - solar physics. He is also qualified CSIR-NET, IIT-GATE and JEST and completed B.Ed. and MA(Ed) to start his academic career in teaching. He has published more than 10 research papers in national and international Peer-reviewed journal, 08 book articles, 04 invited talks in international conference and more 20 in national conferences, workshop and seminars. He has published 07 books for B.Sc. level Physics.



Dr. Neha Arora is presently working as Guest Faculty in S.B.S. Govt PG College, Rudrapur, Uttarakhand. She has awarded Ph.D. degree with major in Physical Science and minor in Computer Science. She had qualified state eligibility (USET) for lectureship in the subject PHYSICAL SCIENCE. She had qualified state eligibility (USET) for lectureship in the subject PHYSICAL SCIENCE accredited by University Grants Commission (UGC), New Delhi. She has more than 5 years of teaching experience and 4 year of research experience. She has contributed in the research area of theoretical modelling for studying the thermophysical properties of nanomaterials. She has published more than 10 research papers in International & National journals. She has attended various International & National conferences, seminars, and workshops.



प्रो. (डॉ.) कवि शुकल राष्ट्रीय वास्तविक राज्य में डी.एस. कॉलेज, अलीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने एम.एस.सी. एवं पी-एच.डी. की उपाधि आगरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से प्राप्त की है। आपके विभिन्न शोध एवं प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एवं-परिचरामों में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने अनेक संगोष्ठी एवं सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आप डॉ. टी.पी.डी. शोध परिषद के समस्तक मंडल के आजीवन सदस्य हैं विज्ञान परिषद प्रयागराज यूपीए के भी आजीवन सदस्य हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में 16 वर्षों का अनुभव प्राप्त है।

UTTARAKHAND STATE UNIVERSITIES B.Sc. 2nd SEM Bilingual (English-Hindi)

विषय (Subject Name)	लेखकनाम (Author Name)
Electricity and Magnetism (विद्युत एवं चुंबकत्व)	Dr. Harish Chandra, Dr. Navaj Kishor Lohani, Dr. Neha Arora, (एच.सी.सी., एन.के.एल.एन.ए.)
Fundamentals of Chemistry - II (विज्ञान विज्ञान के मूल सिद्धांत - II)	Dr. Shashi Chandra Mishra, Dr. Shashi Mishra, Dr. Tapan Mishra, (श.श.च.मि.श.मि., श.श.च.मि.श.मि., टी.एम.एम.मि.श.)
Genetics and Cell Biology (अणुजीवीय विज्ञान/कोशिका जीवशास्त्र)	Dr. Raju Mishra, Dr. Deepika, Dr. Anshika, (डी.एम.एम.एम.एम., डी.डी.एम.एम.एम.)
Parasitology, Gymnosperms and Angiosperms (पारसितोलॉजी, जंतुशास्त्र एवं अणुजीवीय विज्ञान)	Dr. A. K. Mishra, Dr. Neha Arora, Dr. Manoj Kumar Upadhyay, (ए.के.एम.एम., डी.एम.एम.एम., डी.एम.एम.एम.एम.)
Integral Calculus & Vector Analysis (समाकलन, सदिश एवं वेक्टर विश्लेषण)	




Scan QR Code



Also Book Available on:



ISBN: 978-93-5755-125-0



Harish Chandra, Navaj Kishor Lohani, Neha Arora, Kavita Shukla, ISBN: 978-93-5755-125-0